

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 14, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला दमोह, मध्यप्रदेश हेतु नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014
सेक्टर अधिकारियों / जोनल अधिकारियों की सूची

| क्र. (1) | अधिकारी का नाम (2) | पद नाम (3) | कार्यालय का नाम (4) | सेवा/संवर्ग का नाम (5) |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|

नगरपालिका परिषद्—दमोह

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | श्री एम. के. मनोरिया | अनुविभागीय अधि. | जल संसाधन विभाग, दमोह | जल संसाधन विभाग |
| 2 | श्री विनोद वाजपेयी | उप संचालक | पशु चिकित्सा सेवाएं, दमोह | पशु चिकित्सा सेवाएं |
| 3 | श्री एस. के. नेमा | जिला शिक्षा अधिकारी | शिक्षा विभाग, दमोह | शिक्षा विभाग |
| 4 | श्री एम. एस. उर्फ़े | उप वन मंडल अधिकारी | वनमंडल विभाग, दमोह | वन विभाग |
| 5 | श्री जी. पी. उपाध्याय | सहायक यंत्री | जल संसाधन विभाग, दमोह | जल संसाधन विभाग |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 6 | श्री आर. के. नामदेव | अनुविभागीय अधि. | जल संसाधन विभाग, दमोह | जल संसाधन विभाग |
| 7 | श्री राजेश पटेरिया | मुख्य कार्यपालन अधि. | जनपद पंचायत, दमोह | पंचायत एवं ग्रामीण विभाग |
| 8 | श्री एच. एन. सक्सेना | कार्यपालन यंत्री | आर.ई.एस., दमोह | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग |
| 9 | श्री संजय वैश्यायन | कार्यक्रम समन्वयक | कृषि विज्ञान केन्द्र | कृषि विभाग |
| 10 | श्री ए. के. उदेनिया | कार्यपालन अधिकारी | जिला अन्तर्व्यवसायी, दमोह | अन्तर्व्यवसायी विभाग |
| रिजर्व | | | | |
| 1 | श्री आलोक कुमार दुबे | सूचना सहायक | कृषि विज्ञान केन्द्र, दमोह | कृषि विभाग |
| 2 | श्री एम. के. जायसवाल | कार्यपालन यंत्री | म.वि.वि.क. दक्षिण संभाग, दमोह | विद्युत् विभाग |
| 3 | श्री आर. के. नामदेव | अनुविभागीय अधि. | जल संसाधन विभाग, दमोह | जल संसाधन विभाग |
| 4 | श्री एस. के. श्रीवास्तव | कार्यपालन यंत्री | आर.ई.एस., दमोह | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग |
| 5 | श्री डी. एस. बघेल | अनुविभागीय अधि. | आर.ई.एस., दमोह | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग |
| नगरपालिका परिषद्—हटा | | | | |
| 1 | श्री जे. पी. सोनकर | अनुविभागीय अधि. | लोक निर्माण विभाग, हटा | लोक निर्माण विभाग |
| 2 | श्री राहुल गुप्ता | अनुविभागीय अधि. | जल संसाधन विभाग, दमोह | जल संसाधन विभाग |
| 3 | श्री बी. के. सिंह | कार्यपालन अधिकारी | जनपद पंचायत, हटा | पंचायत एवं ग्रामीण विभाग |
| रिजर्व | | | | |
| 1 | श्री शिव राय | परियोजना अधिकारी | ए. बाल विकास परि. बटियागढ़ | महिला बाल विकास वि. |
| नगरपालिका परिषद्—पथरिया | | | | |
| 1 | श्री डी. के. श्रीवास्तव | अनुविभागीय अधि. | डब्ल्यू.आर.डी., दमोह | डब्ल्यू.आर.डी. विभाग |
| 2 | श्री अमर जैन | सहायक यंत्री | लोक निर्माण विभाग, पथरिया | लोक निर्माण विभाग |
| रिजर्व | | | | |
| 1 | श्री ए. डब्ल्यू. खान | सहा. पशु शल्य चिकि. | पशु चिकित्सा सेवाएं, पथरिया | पशु चिकित्सा विभाग |
| नगरपालिका परिषद्—तेन्दूखेड़ा | | | | |
| 1 | श्री बी. पी. खरे | अनुविभागीय अधि. | लोक निर्माण विभाग, तेन्दूखेड़ा | लोक निर्माण विभाग |
| 2 | श्री आर. के. खरे | अनुविभागीय अधि. | डब्ल्यू.आर.डी., दमोह | डब्ल्यू.आर.डी. विभाग |
| रिजर्व | | | | |
| 1 | श्री आर. के. खरे | अनुविभागीय अधि. | डब्ल्यू.आर.डी., दमोह | डब्ल्यू.आर.डी. विभाग |
| 2 | श्री रामेश्वरप्रसाद पटेल | मुख्य कार्यपालन अधि. | जनपद पंचायत, जबेरा | पंचायत एवं ग्रामीण विभाग |
| नगरपालिका परिषद्—हिण्डोरिया | | | | |
| 1 | श्री जयशंकर तिवारी | मुख्य कार्यपालन अधि. | जनपद पंचायत, पटेरा | पंचायत एवं ग्रामीण विभाग |
| 2 | श्री डी. के. अग्रवाल | प्र. कार्यपालन यंत्री | पी.एच.ई. विभाग, दमोह | पी.एच.ई. विभाग |
| रिजर्व | | | | |
| 1 | श्री एस. पी. मिश्रा | सहायक यंत्री | जनपद पंचायत, पटेरा | पंचायत एवं ग्रामीण विभाग |